

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम), मध्य प्रदेश

ऑडिट भवन, झांसी रोड, ग्वालियर

क. प्रशा-14/आयकर/2025-26/का.आ./

58/STR-311 —

दिनांक

29/9/25

कार्यालय आदेश

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 के आयकर का विवरण पत्रक प्रस्तुत करने बावत्।

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम), मध्य प्रदेश, ग्वालियर में कार्यरत समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि वे वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अपनी आय, बचत एवं निवेश का सम्पूर्ण विवरण (पैन कार्ड की छायाप्रति के साथ) निर्धारित प्रारूप (संलग्न) में दिनांक 10/10/2025 तक प्रशासन-14 अनुभाग में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को अपनी आय एवं बचत का विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है साथ ही उनके द्वारा यह भी सूचित किया जाए कि वे आयकर की पुरानी गणना पद्धति अथवा नवीन गणना पद्धति (New tax regime or old tax regime) के अंतर्गत आयकर का भुगतान करना चाहते हैं। निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त विवरणी पर विचार नहीं किया जायेगा एवं कार्यालय के अभिलेख के अनुसार आयकर की गणना कर आयकर का कटौती कर लिया जायेगा।

सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (उपमहालेखाकार सेल), दौरे पर चल रहे लेखापरीक्षा दलों को अपनी आय, बचत एवं निवेश का सम्पूर्ण विवरण अनुभाग प्रशासन-14 में निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करने की व्यवस्था करें।

(प्राधिकार उप महालेखाकार/प्रशासन के आदेश दिनांक:- 28.09.25)

— हस्ताक्षर —

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन-14

प्रतिलिपित निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित:

1. सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम), म.प्र., ग्वालियर।
2. उप. महालेखाकार/प्रशासन एवं ए.एम.जी. 1,2,3,4,5 एवं प्रशासन. प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम) कार्यालय, मध्य प्रदेश, ग्वालियर।
3. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन-11,12,13,14, SMU, APDAC, AIC-I,II & III, गोपनीय कक्ष, रिपोर्ट, रिपोर्ट(पीएसी), फाप, फास-एम, विधि कक्ष, सामान्य अनुभाग, कार्यपालन शाखा एवं आईटीए।
- ✓ 4. स.ले.प.अ. (DAG Cell)/ ए.एम.जी- I, II,III,IV एवं V।
5. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ IS Wing & E-Cell को कार्यलेयीन वेबसाईट पर अपतन करने हेतु।
6. श्री उत्कर्ष यादव, स.ले.प.अ. को इंटरनेट संबंधी कार्य हेतु।
7. सूचना पटल।

— हस्ताक्षर —

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन-14

**OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT-I),
MADHYA PRADESH, AUDIT BHAWAN, GWALIOR**

**Details of estimated Income and Savings for the purpose of Income Tax
for the financial year 2025-2026 (Assessment Year 2026-2027)**

*I, hereby opt **Old slab/New slab** of income tax for the
purpose of Income tax for the financial year 2025-26 (Assessment Year 2026-27)*

1.	Name and Designation		
2.	Permanent number		
3.	Section/ Branch / Group where working		
4.	Permanent Account Number (PAN) (Allotted by tax authorities) "MUST"		
COMPUTATION OF TOTAL INCOME (TAXABLE INCOME) AND TAX PAYABLE THERE ON			
5.	(a)	Salary (Pay + DA,), Tr. Allowance, CASH AWARD, Arrears, Reimbursement of tuition fee, OTA, Honorarium etc.	
	(b)	House Rent Allowance	
	(c)	Perquisites	
	(d)	Profits in lieu, or in addition to salary	
	(e)	The interest earned on Provident Fund/General Provident Fund contribution above Rs. 5,00,000/- in F.Y-2022-23	
Gross Salary : Total (5 (a)+(b)+(c)+(d))			
6.		Less: Exemption of HRA U/S 10(13A) [Rent receipt along with PAN number of land lord should be attached]	
	I	HRA Received during the relevant period	
	II	Rent Paid during the relevant period in excess of 10 per cent of salary (i.e. Pay+ DA)	
	III	40 per cent of Salary (i.e. Pay + DA)	
Least of the above three (I, II, III)			
7.		Less: Standard Deductions from Salary	50,000(Old Regime) 75,000(New Regime)
8.		Less: Deductions from Salary Professional Tax U/S 16 (iii)	
9.		Income from Salary [(5) – (6) – (7) – (8)]	
10		Income from any other head of income e. g	
	(a)	Income/ Loss from house property (Please furnish statement of computation of Income/Loss under this head)	
	(b)	Capital Gain	
	(c)	Income from other sources	

Total [10 (a) + 10(b) + 10(c)]		
11		Gross Total income [Column (9) + (10)]
12		Less: Deductions under Ch. VI A
	I	U/S 80 C
	a	GPF
	b	CGEGIS
	c	PPF
	d	LIP/LIC
	e	NSCS/PLI
	f	Subscription to National Housing Bank etc
	g	Repayment of HB Loan Principal
	h	Tuition Fees
	i	Mutual Fund
	j	Other
		Total ((a) to (j))
	I	U/S 80 CCC
	I	U/S 80 CCD 1 (New Pension Scheme self-contribution)
	I	Aggregate amount of deduction U/S 80 C, 80 CCC and 80 CCD1 (Restricted to Rs.1,50,000 U/S 80 CCE)
	V	80CCD2 (GOVT. CONTRIBUTION)
		U/S 80CCD 1B – Contribution towards National Pension Scheme (up to Rs.-50,000)
	V	Mediclaime U/S 80 D (up to 25000)
	V	Handicapped dependent U/S 80 DD (up to 75000/1,25,000)
	V	Under Section 80 G
	I	Handicapped Employee U/S 80 U (up to RS 75000/1,25000-)
	X	Any other section
13		Aggregate amount of deduction [(IV) +(V)+(VI)+(VII)+(VIII)]
14		Total Taxable income rounded off to nearest multiple of ten rupees) (11-13)
15		Income Tax
16		Education Cess 4% of Income Tax
17		Total Tax Payable
18		Relief U/S 89 (I) if any (attach details)

19	Net Income Tax	
----	----------------	--

Place:

Signature of Government Servant

Date:

Mobile No.

Rate of Income Tax

NON-SENIOR CITIZEN OLD REGIME		NEW REGIME	
Annual Income (Rs)	Tax Rates	Annual Income (Rs)	Tax Rates
Up to 250000	Nil	Up to 400000	Nil
250001-500000	5%	400001-800000	5%
500001-1000000	20%	800001-1200000	10%
More than 1000000	30%	1200001-1600000	15%
-	-	1600001-2000000	20%
-	-	2000001-2400000	25%
-	-	More than 2400001	30%

Note:- The new tax regime would be the default option for taxpayers. If the official has not opted any regime, the tax would be calculated and deducted according to new tax regime.